

सहज योग ध्यान

मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है



सहज योग में कुंडलिनी जागरण व निर्विचार समाधि, मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और अपने आप को जानने में मदद मिलती है।



Meditate
to release
stress & discover
inner
Peace

श्री माता जी निर्मला देवी

द्वारा विकसित सहज योग



सहज योग

सहज योग की खोज निर्मला श्रीवास्तव ने की, उन्हें ‘श्री माता जी निर्मला देवी’ के नाम से भी जाना जाता है। सहज योग में कुंडलिनी जागरण व निर्विचार समाधि, मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और अपने आप को जानने में मदद मिलती है। माता निर्मला देवी द्वारा विकसित इस योग को मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद फायदेमंद है

क्या है सहज योगा ?

सहज योगा में आसान मुद्रा में बैठकर ध्यान किया जाता है। ध्यान के दौरान इसका अभ्यास करने वाले लोगों में सिर से लेकर हाथों तक में एक ठंडी हवा का एहसास होता है। चिकित्सकों ने सहज योगा के अन्य प्रभावों के बारे में भी बताया है। इस योग को करने से लोगों में शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति व आराम मिलता है। सहज योगा केवल एक क्रिया का नाम नहीं हैं, यह वह तकनीक भी है जिससे लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया गया है। यह मुख्य रूप से आत्म बोध का प्रचार है जिससे कुंडलिनी जागृत होती है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है।

सहज शब्द की उत्पत्ति

सहज शब्द संस्कृत के दो शब्दों को जोड़ कर बना है। ‘सह’ का अर्थ है ‘साथ’ और ‘जा’ का अर्थ है ‘जन्म’। जब यह दोनों शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसका अर्थ है प्राकृत के करीब होना। सहज योगा के अनुयाईयों का विश्वास है कि उनके अंदर कुंडलिनी का जन्म होता है और वे उन्हें स्वतः जागृत कर सकते हैं।

क्या कहते हैं शोध

यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी मेडिकल स्कूल में मनोचिकित्सा विभाग के वरिष्ठ व्याख्याता रमेश मनोचा ने सहज पर किए शोध में पाया कि सामान्य लोगों की तुलना में उन लोगों की मानसिक और शारीरिक सेहत ज्यादा अच्छी थी, जिन्होंने कम से कम दो वर्षों तक सहज योग को आजमाया था।



मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है सहज योग

माता निर्मला देवी द्वारा विकसित सहज योग मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह मुख्य रूप से आत्म बोध का प्रचार है जिससे कुंडलिनी जागृत होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है।

सामान्य स्वास्थ्य के लिए है सहज योगा

चिकित्सकों ने सहज योगा के अन्य प्रभावों के बारे में भी बताया है। उनके अनुसार योग को करने से लोगों में शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति व आराम मिलता है। साथ ही शरीर में होने वाली बीमारियों को जड़ को खत्म किया जा सकता है।

बीमारियों में लाभकारी है सहज योगा

शोधकर्ताओं के मुताबिक मौन की यह प्रक्रिया कायिक और मानसिक स्वास्थ्य के कई रास्ते खोलती है। सहजयोग के नियमित अभ्यास से कैंसर, ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन और हृदय के रोगियों को भी लाभ हुआ है।

विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है सहज योगा

खासकर विद्यार्थियों के लिए तो योग अमृत के समान है। जो विद्यार्थी योग को अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करते हैं वे न केवल पढ़ाई में अव्वल आते रहते हैं, साथ ही अन्य गतिविधियों में भी उनका कोई मुकाबला नहीं रहता।



सहज योग के लाभ

आईए जानें सहज योगा से होने वाले फायदे के बारे में।

- सहज योग करने से थकावट दूर होती है।
- इससे आपको क्रोध को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।
- सहज योग हमें गुणात्मक विशेषताएं प्रदान करते हैं।
- सहज योग मन की समस्याओं को सुलझाने की सबसे बड़ी कुंजी है।
- जब दमा, रजोनिवृत्ति के लिहाज से सैकड़ों लोगों पर सहज योग के असर का आकलन किया गया था तो उसका परिणाम उत्साहपूर्वक आया था।

सामान्य स्वास्थ्य के लिए

सहज योगा से शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से मजबूती मिलती है। साथ ही शरीर में होने वाली बीमारियों को जड़ को खत्म किया जा सकता है।

तनाव से मुक्ति

सहज योगा से दिमाग को तनाव झेलने की शक्ति मिलती है। साथ ही आपके सोने के तरीके को भी सुधारता है। इस योगा से व्यक्ति को आसपास के तनाव, दिनभर की थकान व अपने गुस्से को नियंत्रित करने में आसानी होती है।

बुरी आदतों व लत से छुटकारा

किसी भी तरह की बुरी आदत व लत से जैसे धूम्रपान, मंदिरा सेवन आदि को छोड़ने के लिए इसका अभ्यास किया जा सकता है।

संचार कौशल

सहज योगा के नियमित अभ्यास से आप लोगों से अच्छी तरह से पेश आते हैं। साथ ही दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते जोड़ने में मदद मिलती है।

एकाग्रता

सहज योगा से लोगों में एकाग्रता बढ़ती है और जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं।

कई बीमारियों से निजात दिलाता है सहज योग का अभ्यास

हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, यदि इन्सान में इच्छा शक्ति हो तो वो हर चीज़ कर सकता है। जब यह तथ्य सही है तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। प्राचीन समय ने हमें विरासत में कई तकनीक दी है, जिनकी बदोलत व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, बस जरूरत है इन्हें अपनाने की।

गुरु नानक, संत ज्ञानेश्वर आदि महान ज्ञानियों के प्रवचन में सहज योग का उल्लेख मिलता है। सहज योग की मदद से कई लाइलाज बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक सभी तरह के लाभ शरीर को मिलते हैं।

यह आत्मज्ञान को प्राप्त करने की बहुत ही सुलभ ध्यान पद्धति है। इस पद्धति को सीख कर हर इन्सान अपने हर कार्य को व अपने जीवन को सफल कर सकता है। इससे तनाव दूर होता है, इससे पीठ दर्द से राहत मिलती है। इसका अभ्यास करने वाला व्यक्ति पूरा दिन उर्जा से परिपूर्ण होता है।



संतुलन तकनीकें Balancing Techniques



Balancing the Moon Channel

चन्द्रमा नाड़ी संतुलन



Balancing the Sun Channel

सूर्य नाड़ी संतुलन



USING WATER ELEMENT

जल तत्व का उपयोग करना



Balancing the Lotus Channel

मध्य नाड़ी संतुलन



USING EARTH ELEMENT

पृथ्वी तत्व का उपयोग करना

To know more about Balancing Techniques please contact our expert meditation practitioners
संतुलन तकनीक के बारे में और जानने के लिए कृपया हमारे विशेषज्ञ ध्यान चिकित्सकों से संपर्क करें



स्वयंचलित तंत्रिका प्रणाली



Super Ego

पिंगला नाडी 9
सुषुम्ना नाडी 10
अनाहृत चक्र 4
Love & Compassion.
Heart Energy Center

स्वाधिष्ठान चक्र 2
Creativity.
Energy Center of the
Lower Abdomen

7 सहस्रार चक्र
Integration.
Crown Energy Center.

Ego

आज्ञा चक्र
Forgiveness.
Energy Center of the Forehead.

8 इडा नाडी
5 विशद्धि चक्र
Collectivity.
Energy Center of the Throat

SPIRIT (SOUL)


3 नाभि चक्र
Generosity,
Evolution.
Stomach Energy Center

भवसागर चक्र

1 मूलाधार चक्र
Innocence &
Wisdom
Root Energy Center



THE SUBTLE SYSTEM



Entirely
Free
of Charge

www.sahajayoga.org / www.freemeditation.com